

अन्तराष्ट्रीय  
आयोग

1987

Our  
Common  
Future



SDGs  
MDGs

→ United Nations ↓

17

गरीबी, भूखमरी  
आदि -

2015 में  
2016 में ल  
दालि -

VAT कहा कर है।

→ वस्तुशुल्क

↓  
Value Addition Tax

or

Tax on Value addition  
कर को मूल्य संवर्धन पर शुल्क

ITC = Input Tax  
credit

↓  
आगतों पर दिये गये करों  
को वापस करना या उन्हें  
offset (समाप्त) करने से  
इस सेना ।

₹ 20



Price - ₹60

GST - ₹ 6

天 66

↑

✓ Price — ₹

GST  
① 10% - (₹

Total - ₹

# Tax Evasion

कर चोरी


Black Money

Taxable

Income / Asset

↓  
You don't pay tax

Black Money may  
be associated with  
legal activities.




Black Money



legal & illegal

स्रोत : Source एत अस  
है।



Dirty Money



Source : illegal

कर भरी देना क कृपया कर भरी देना

Avoidance करते हैं।

उदाहरण -

Tax havens (कर से कम दर वाले राष्ट्र) में office बनाकर उच्च कर से दर वाले राष्ट्रों में डिजिटल सेवाएं देना।

PE = Permanent  
Establishment

CIT = Corporate Income Tax

| <u>Tax haven</u> | Ireland     | India     |
|------------------|-------------|-----------|
|                  | ↓<br>12.5 % | ↓<br>25 % |

✓ Global Minimum Tax Rate

G-20/OECD Inclusive Framework on BEPS

↳ Organisation Economic  
Cooperation & Dev.



Pillar - 1 ——— Turnover > Euro  
20 billion



Excessive profits (अल्पधिक  
लाभ)  
are to be taxed at the  
minimum rate of 25% in the  
country of operation.

अल्पधिक मुनाफों पर कम से कम  
25% की कर भी दर का भुगतान करना

15% का Minimum CIT  
देना होगा।

If the CIT of a  
country is less than 15%, then,  
the home country is to impose a  
Top-up tax rate.

यदि किसी राष्ट्र का CIT  
15% से कम है तो Home Country द्वारा  
Top-up tax rate लगाई जायेगी।

a project of G-20/OECD  
to control tax avoidance by  
MNCs.

G-20/OECD राष्ट्रों की एक  
परियोजना जो बहु-राष्ट्रीय कंपनियों  
द्वारा किए जाने वाले Tax avoidance  
को नियंत्रित करती है

Rules

↓  
India's rules



✓ (iii) GLOBE = Global Anti Base  
Erosion

Rules ↓ of Pillar-2 of  
Global Minimum Tax.

(iv) POEM = Place of Effective Management



India's rules

(v) CRS = Common Reporting Standards



G-20 / OECD Standards

(vi) Google Tax -

a tax imposed by India

⑨ 6% on advertisement

income in India of  
foreign resident companies.

Also known as EL-1.0 .



Equivalisation Levy

भारत द्वारा २०१६ में विदेशी  
अनिवासी कंपनियों की भारत में  
विज्ञापन आय पर ६% की दर से  
लगाया गया एक कर ।  
इसे E L - १० भी  
कहा है

DST = Digital services tax



a tax imposed by India

- ⑨ 2% on digital services  
provided by foreign resident companies  
विदेशी निवासी कंपनियों द्वारा  
उपलब्ध कराई जाने वाली डिजिटल  
सेवाओं पर 2% की दर से भारत द्वारा  
लगाना शुरू करे।

EL-2.0



Equivalisation Levy

21/11/22

Note - Recently, the GOI reimposed this tax on crude-oil producing companies.

First → July 2022

करने तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियों पर इसे हाल ही में वापस लागू किया गया

(ii) Angel Tax — First → 2012

↓

Budget 2023-24 extended  
the scope of this tax to  
include foreign & non-resident  
angel investors.

बजट 2023-24 द्वारा इसके  
क्षेत्र में व्यापक करते हुए विदेशी और  
स्थायी निवासी निवेशकों में इसे



Share ka Uchit  
Bajaar Moolya  
(FMV)

₹100

↓  
Angel  
Investor

↓  
₹200

DP IIT

---

रफि २९

